



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1937 (श0)  
(सं0 पटना 400) पटना, वृहस्पतिवार, 26 मार्च 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

25 मार्च 2015

एस0ओ0 31, दिनांक 26 मार्च 2015—केन्द्रीय बिक्री-कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम-9सी के उप-नियम(13) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निबंधित व्यवसायी को निर्गत प्रपत्र 'एफ' को अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जाता है एवं सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है -

1.	M/s L.G Electronics Pvt. Ltd. CST-TIN -10050078142	क्रमांक BG/F-230733, BG/F-230745 एवं BG/F-230760 (कुल तीन पन्ना)
2.	प्रपत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम।	वाणिज्य-कर उपायुक्त, पाटलीपुत्र अंचल, पटना।
3.	प्रपत्र रद्द करने का कारण	घोषणा प्रपत्रों का खो जाना।
4.	प्रपत्र रद्द करने का उद्देश्य	दुरुपयोग की रोकथाम।
5.	प्रपत्र के अमान्य होने की तिथि	वाणिज्य-कर कार्यालय द्वारा निर्गमन की तिथि से।

(सं0 सं0 बिक्री-कर/रद्द-01/2015-1327)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रवि मित्तल,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

25 मार्च 2015

एस0ओ0 32, एस0ओ0 31, दिनांक 26 मार्च 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के आदेश से प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 बिक्री-कर/रद्द-01/2015-1328)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 25th March 2015*

S.O. 31, dated the 26th March 2015—In exercise of the power conferred by the sub-rule (13) of Rule 9C of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957, the declaration form “F” issued to the following registered dealer are being cancelled and declared invalid and hereby published for general information-

**Particulars of the Declaration Forms**

1.	M/s. L.G. Electronics Pvt. Ltd. CST-TIN -10050078142	Sl. No.- BG/F-230733, BG/F-230745 & BG/F-230760 (Total Three Forms)
2.	Designation of the officer who issued the form	Deputy Commissioner of Commercial Taxes, Patliputra Circle, Patna.
3.	Reason for cancellation of form	Due to Loss of Form.
4.	Purpose for cancellation of forms	Prevention of misuse.
5.	Date from which declared invalid	From the date of issue by the Commercial Taxes office.

(F.No. Bikari-kar/Radd-01/2015-1327)

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 400-571+20-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>